

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

मीठे बच्चे -

पढ़ाई का सिमरण करते
रहो तो कभी भी किसी
बात में मूँझेंगे नहीं, सदा
नशा रहे कि हमें पढ़ाने
वाला स्वयं निराकार
भगवान है"



सच बोलने का शौक अगर रखते
हो तो,
अकेले रहने की हिम्मत भी रखना.

सच्चे दिल पर
साहिब राजी



सच की नैया हिलेगी
लेकिन डूबेगी नहीं




जो कुछ भी ड्रामा में होता है
उसमें कल्याण ही भरा हुआ है,
चाहे बाहर की रीति से नुकसान
भी दिखाई दे लेकिन उस
नुकसान में भी कल्याण समाया
हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब
परमात्मा बाप का साथ और
हाथ है तो अकल्याण हो नहीं
सकता।

जो एक सुखदाता
शिवबाबा की याद में रहते हैं
उनके पास दुःख की लहर
कभी आ नहीं सकती
उन्हें स्वप्न भी सुख के,
खुशी के, सेवा के और
मिलन मनाने के आते हैं



परमपिता शिव परमात्मा



पिताश्री ब्रह्मा बाबा

Om Shanti

Join Brahma Kumaris


अव्यक्त शिक्षाएँ



करूँ... इस बोझ से भी हल्के रहो। भल भावना तो अच्छी है कि यह चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना ! इस कहने के बजाए स्वयं हल्के हो उड़ती कला के अनुभव में रहो। तो उसको भी शक्ति मिलेगी। इसके 'लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्तिरूप बन सर्वशक्तिवान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिन्तन वा चिन्ता मत करो। बन्धन में नहीं फँसो। अगर बन्धन है तो उसको काटने का तरीका है- 'याद'। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जायेंगे।

अगर आवाज़
ऊंची होगी तो कुछ
ही लोग सुनेंगे,
और अगर बात
ऊंची होगी तो
बहुत से लोग
सुनेंगे ।

Fb | OM Shanti





“ **"I am a POWERFUL BEING.**
I empower everyone I meet.
I appreciate them for who they are.

Today I share with each one...
Their qualities which make them beautiful souls.

I can see only goodness in every being." ”



Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org